

# शंकरलाल रामपाल डई-केम लिमिटेड

SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LTD.  
Regd. Office Address: S.G. 2730, SUWANA, BHILWARA-311011 (RAJ)  
Corresponding Address: Near Kamal Ka Kuwa, Bhilwara 311001, Rajasthan  
CIN: - L24114RJ2005PLC021340, GSTIN-08AAKCS4423Q1ZQ, 27AAKCS4423Q1ZQ  
Phone: +91-1482-220062, Email: info@srdyechem.com,  
Website: www.srdyechem.com



16<sup>th</sup> April, 2026

Stock Code BSE: SRD  
NSE: 542232  
ISIN: INE01NE01012

BSE Limited,  
Corporate Relationship Department,  
2nd Floor, New Trading Wing,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No. C/1, G Block,  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

**Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of Postal Ballot**

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the Newspaper Advertisement published in the following newspapers on **16/04/2026** for Notice of Postal Ballot seeking approval of the Members of the Company for appointment of **Mr. Sumit Jain (DIN: 11490160)** as the Independent Director.

- Financial Express in English;
- Business Remedies in Hindi;

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you

Yours faithfully,

**For, Shankar Lal Rampal Dye Chem Limited**

**Aditi Babel**

**Whole Time Company Secretary & Compliance Officer**

**Membership No: F13506**

**Encl.: As above**



**TATA POWER**

(Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, 2<sup>nd</sup> Floor, Sahar Receiving Station  
Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059  
(Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors for the following packages (Two Part Bidding) in Mumbai.

- A) Miscellaneous Civil works for GIS Building at Kalwa Sub-station. (Package Ref No: CC27SVP001).
- B) Supply of ACCC Hamburg Conductor (or any equivalent approved conductor) and Accessories for 400kV Dharavi – Vikhroli Project in Mumbai. (Package Ref No: CC27FK001).
- A) Supply, Inspection & Testing of 33 kV HT cable at various transmission location in Mumbai. (Package Ref No: CC27TP003)

Interested & eligible bidders for above packages A, B & C to submit Tender Fee, Authorization Letter before **15:00 Hrs. Friday, 24<sup>th</sup> April 2026.**

For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Also, all future corrigendum's if any, to the said tender will be published on Tender section of above website (Tata Power → Business Associates → Tender Documents) only.

**SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED**

CIN: L24114RJ2005PLC021340

Registered Office: SG-2730, Suwana, Bhillwara – 311011, Rajasthan, India, Tel: +91-1482-22062

Email: [info@srध्येchem.com](mailto:info@srध्येchem.com) | Website: [www.srdयेchem.com](http://www.srdयेchem.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, (Rules), General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, and subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Regulations), and any other applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued thereunder [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time], the Company has, through Cameo Corporate Services Ltd, sent Notice of Postal Ballot vide e-mail dated 15TH April 2026, to those Members who have registered their e-mail IDs with the Depository Participant(s) or with the Company as on Friday, 10th April, 2026, being the cut-off date, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act, along with the Login ID and password, for seeking their approval on the following resolution:

Sr. No.	Description and Type of Resolutions
1	Special Resolution Appointment of Mr. Sumit Jain (DIN: 11490160) as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation, to hold office for a period of 5 (five) consecutive years i.e., from 9th April, 2026 to 8th April, 2031.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Nitin Mehta (Proprietor, N Mehta & Associates) (FCS: 7025 and COP No.: 12483) Practicing Company Secretary to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner.

In accordance with the MCA Circulars, Members can provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has entered into an agreement with Cameo Corporate Services Ltd, Registrar and Share Transfer Agent (RTA), for facilitating e-voting by the Members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. The e-voting period is as follows:

Commencement of e-voting	Friday, April 17, 2026 at 9:00 A.M. (IST)
End of e-voting	Saturday, May 16, 2026 at 5:00 P.M. (IST)

Members are requested to note that voting beyond Saturday, May 16, 2026 at 05:00 P.M. (IST) will not be allowed and the e-voting module shall be disabled thereafter.

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

The voting rights of Members shall be reckoned as on Friday, 10th April, 2026 which is the 'cut-off date'. A person who is not a Member of the Company as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at:

Company: [www.srdयेchem.com/investor-relations](http://www.srdयेchem.com/investor-relations)

BSE Limited: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

NSE: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

NSDL (E-voting): [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

Members holding shares in physical form and who have not updated their e-mail IDs with the Company are requested to update the same by submitting a duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/update thereof) along with self-attested copy of PAN Card and self-attested copy of any document as address proof to our RTA - Cameo Corporate Services Ltd at Subramanian Building, #1, Club House Road, Chennai 600002, Tamil Nadu. or by email to [rdr@cameoindia.com](mailto:rdr@cameoindia.com) from their registered email id. In case of any queries or issues regarding the e-voting facility, Members can connect: NSDL Helpdesk  
Toll Free No.: 1800-1020-990 / 1800-224-430  
Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

Members may also write to the Company Secretary at [cs@srध्येchem.com](mailto:cs@srध्येchem.com).

Date: 16/04/2026 By the Order of the Board  
Place: Bhillwara, Rajasthan For Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited  
Sd/-  
Aditi Babel  
Company Secretary & Compliance Officer

**JSW Steel Limited**

CORPORATE IDENTIFICATION NO. (CIN) : L27102MH1994PLC152925

Regd. Office: JSW Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: [jswsl.investor@jsw.in](mailto:jswsl.investor@jsw.in) Website: [www.jsw.in](http://www.jsw.in)

**NOTICE**

**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION (DEMAT) OF PHYSICAL SHARES**

Pursuant to SEBI circular no. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026, the special window for transfer and dematerialisation of physical shares has been extended for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027.

This facility is available to applicants who had lodged transfer deeds prior to the deadline of April 1, 2019 for transfer and rejected/returned due to deficiencies in the documents. Applicants may refer to the below matrix for clarity regarding the applicability of this window.

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 01, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
Before April 01, 2019	Yes	No	No
Before April 01, 2019	No	No	No

Investors re-lodging the transfer deed under this window are required to submit the original share certificate(s) and transfer deed along with all relevant supporting documents. The shareholders may note that the securities re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode and shall remain under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer.

Investor wishing to avail this facility under the special window may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited Unit: JSW Steel Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana. Toll free number - 1800-309-4001; Email - [einward.ris@kfinetech.com](mailto:einward.ris@kfinetech.com) Email for Senior Citizen – [senior.citizen@kfinetech.com](mailto:senior.citizen@kfinetech.com)

For JSW Steel Limited  
Sd/-  
Manoj Prasad Singh  
Company Secretary  
(in the interim capacity)  
Membership No. FCS 4231

Place : Mumbai  
Date : April 15, 2026

**Kirloskar Ferrous Industries Limited**

A Kirloskar Group Company

Registered Office: : 'One Avante', Level 5, Karve Road, Kothrud, Pune 411038, Maharashtra

CIN : L27101PN1991PLC063223



**2<sup>ND</sup> NOTICE FOR SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES**

In continuation to our earlier advertisement dated 13 February 2026 and pursuant to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSDPOD/1/3750/2026 dated 30 January 2026 (Circular), all shareholders are hereby informed that a special window has been opened for a period of one (1) year, from 5 February 2026 to 4 February 2027, to facilitate transfer and dematerialisation of physical securities which were sold/purchased prior to 1 April 2019.

The special window is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected, returned or not attended to due to deficiency in the documents, process or otherwise. The Window is available for instances permitted under the applicability defined in the aforesaid circular.

Kindly note that during this window, shares so transferred will be credited only in dematerialised (Demat) form and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred, lien-marked or pledged during the said lock-in period. Further, securities which have been transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) shall not be considered under this window for processing.

Eligible shareholders may submit their requests along with the requisite documents as mentioned in the Circular, to the Company and/ or MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Transfer Agent (RTA) within the stipulated period, at the details given below:

MUFG Intime India Private Limited  
(formerly known as Link Intime India Private Limited)  
Registrar and Share Transfer Agent (RTA)  
Akshay Complex, Block No. 202, Second Floor, Near Ganesh Temple,  
Off Dhole Patil Road, Pune 411001  
Email : [Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com](mailto:Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com)  
Tel: 020 - 26161629 / 26160084

The aforesaid SEBI Circular is being uploaded on the website of the Company, i.e. <https://www.kirloskarferrous.com/investors-for-share-holders/notices-to-members>

For Kirloskar Ferrous Industries Limited

Sd/-  
Mayuresh Gharpure  
Company Secretary  
Place : Pune  
Date : 15 April 2026  
Tel: +91 20 6906 5040  
Email: [kfiinvestor@kirloskar.com](mailto:kfiinvestor@kirloskar.com) - Website: [www.kirloskarferrous.com](http://www.kirloskarferrous.com)

"Mark bearing word 'Kirloskar' in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Limited and Kirloskar Ferrous Industries Limited is the Permitted User"



**ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED**

(formerly Century Textiles and Industries Limited)

Registered Office: Century Bhavan, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030.

Phone: +91-022-24957000 • Fax: +91-22-24309491, +91-22-24361980

Website: [www.adityabirlarealestate.com](http://www.adityabirlarealestate.com) • Email: [ctil.secretary@adityabirla.com](mailto:ctil.secretary@adityabirla.com)

CIN: L17120MH1897PLC000163

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

**Second 100 days Campaign - "Saksham Niveshak" - 1<sup>st</sup> April, 2026 to 9<sup>th</sup> July, 2026 update your KYC and related details and claim your unpaid/unclaimed dividends**

Further to the first 100 days Campaign issued by the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), the IEPFA re launched the second 100 days campaign - "Saksham Niveshak" from 1<sup>st</sup> April, 2026 till 9<sup>th</sup> July, 2026.

In line with this initiative, the shareholders of the Company who have unpaid/unclaimed dividend(s) with the company or whose KYC details, (viz. PAN, Nomination details, postal address, mobile number, email, Bank account details and Specimen signature), have not been updated till date are requested to take advantage of this campaign to update their details by submitting the below mentioned documents to claim their dividends.

Type of holding	Documents to be submitted
Shares held in Physical Form	<ul style="list-style-type: none"> <li>Form ISR-1: Filled and signed, with self-attested KYC documents</li> <li>Form ISR-2: Filled and signed, with banker's attestation of your signature + original cancelled cheque (with your name printed) or self-attested bank passbook/statement</li> <li>Form SH-13: For adding a nominee</li> <li>Form ISR-3: if you wish to opt out of nomination (you can download the aforesaid forms from <a href="http://www.adityabirlarealestate.com">www.adityabirlarealestate.com</a>)</li> </ul>
Shares held in Demat Form	Update KYC details with your Depository Participant

Documents to be submitted by:

- **Post:** Physical copies, self-attested and dated to MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited), C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
- **Email:** From your registered email ID, digitally signed documents (first holder must sign in case of joint holding) to [mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com](mailto:mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com) / [ctil.investorrelations@adityabirla.com](mailto:ctil.investorrelations@adityabirla.com)
- **Online:** Upload via RTA Portal: [https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service\\_Request.html](https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html)

Since dividend on shares is only payable in electronic mode, dividend will only be credited in shareholder's bank account AFTER updating the above information/documents.

If you need any assistance or have any questions, you may reach out to us.

For Aditya Birla Real Estate Limited  
Sd/-  
Atul K. Kedia  
Jt. President (Legal) & Company Secretary

Place: Mumbai  
Date: 15<sup>th</sup> April, 2026

Regd. Office: ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Near Chakli, Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat - 390 007  
Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

**PUBLIC NOTICE - INVITING EXPRESSION OF INTEREST FOR SALE OF LOAN OF ERA INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED**

In terms of the policy of ICICI Bank Limited, ("ICICI Bank") on sale of loans and in line with applicable regulatory guidelines, ICICI Bank hereby invites expression of interest ("EOI") from interested asset reconstruction companies/Banks/non-banking financial companies/and other eligible entities (referred individually as "Party" and collectively as "Parties") for the purchase of the financial assets sanctioned by ICICI Bank (more particularly described herein below and hereinafter referred to as "Loan") to Era Infrastructure (India) Limited ("EIL" or "Borrower") on an "as is where is, as is what is, whatever there is and without recourse" basis.

EIL, engaged in the business of operation and maintenance of BOT road projects undertaken by Era Group, was incorporated in 2007 and has its registered office at B-292, Chandra Kanta Complex, Shop No. 2 & 3, Near Metro Pillar No. 161, New Ashok Nagar, New Delhi – 11009. ICICI Bank has granted various credit facilities to EIL. The principal outstanding of the loans sanctioned to EIL as of March 31, 2026 is INR 1,395.0 million (Rupees One Thousand Three Hundred and Ninety Five Million).

Further details of the background of the aforesaid Borrower, its financials, including Loans, securities available to ICICI Bank against the Loan etc. will be made available in the Preliminary Information Memorandum ("PIM") and offer document.

**TERMS & CONDITIONS FOR SALE OF LOAN:**

1. The sale of the aforesaid Loan is on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "Without recourse basis".
2. All Parties who are eligible as per Master Direction on Reserve Bank of India (Commercial Banks- Transfer and Distribution of Credit Risk Directions, 2025 and any other the applicable regulatory guidelines are invited/eligible for participating in the purchase of Loan.
3. Offer for sale of Loan is solicited on cash basis only. Cash shall be payable upfront in the form of demand draft/ electronic transfer upon acceptance of offer.
4. The Anchor Bidder will have Right of First Refusal ("ROFR") and will be allowed to match the highest bid received at the end of the auction conducted as per Swiss Challenge method.
5. Interested Parties should submit their EOIs latest by 5:00 PM (IST) on April 21, 2026, by hand delivery/email in the addresses provided hereinbelow, along with relevant documents to establish their eligibility to the satisfaction of ICICI Bank.
6. EOI should be on the letterhead of the Party and must be signed by the authorized signatory of the Party, supported with evidence of authority of such authorized signatory (Board Resolution/Power of Attorney/equivalent document). The EOI shall compulsorily state the following: a. That the Party intends to participate in the purchase of Loan and that it would like to proceed with due diligence in the due diligence room (to be set up by ICICI Bank in ICICI Bank premises or organized in electronic mode at its sole discretion). b. That the Party is eligible (under applicable laws and regulations of India) and has the capacity to enter and conclude the purchase of the Loan in accordance with applicable laws and regulations of India. c. That the Party has the financial capacity to undertake the purchase of the Loan, should its bid be accepted. d. That in undertaking the proposed transaction, the Party will have no conflict of interest, and such Party is not related, direct or indirectly, either with ICICI Bank or with the Borrower. e. Names of the authorized official(s) along with their contact details (mobile number, e-mail IDs, etc.)
7. ICICI Bank reserves the right to ask for further information relating to the financial standing of the interested Parties or other documents relation to such interested Parties (including balance sheet/KYC related documents or any other documents) at its sole discretion. ICICI Bank further reserves the right to declare an interested Party as ineligible in case KYC or any other documents/information are not furnished on demand, and the decision of ICICI Bank in this regard shall be final and binding on all Parties.
8. Parties will be required to execute a non-disclosure agreement ("NDA") within two days of submission of EOI. Immediately upon execution of the NDA, PIM (along with other account related information) and the offer document containing detailed process for the sale of Loan shall be shared with the Parties. Such information will be furnished based on the available data and shall not be deemed to be representation of the quality of the Loan. Further, ICICI Bank shall not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars, including the details mentioned under the PIM/offer document.
9. A maximum period of two weeks shall be provided to the Parties for due diligence. Reserve Price would be disclosed in the Offer Document prior to due diligence.
10. Subject to the applicable laws and regulations, ICICI Bank reserves the right to add, remove or modify the terms of sale of the Loan at any stage without assigning any reason and without incurring any liability of whatsoever nature to any Party or person, and the decision of ICICI Bank in this regard shall be final and binding on all Parties. Further, subject to applicable laws and regulations, ICICI Bank reserves the right to reject and/or cancel and/or defer the sale of the Loan at any stage, without assigning any reason and the decision of ICICI Bank in this regard shall be final and binding on all Parties. Additionally, ICICI Bank also reserves its rights to reject any EOI received after the stipulated timeline mentioned in this public notice.
11. Each Party expressly acknowledges and agrees in connection with its participation in the proposed purchase of the Loan that for such Party's participation in the process such Party has been, and will continue to be, solely responsible for its own due diligence, independent appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with the Loan including but not limited to: (a) The financial condition and status of the Borrower. (b) The legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of any financing document and at other agreement, arrangement or document entered, made or executed in anticipation of, under or in connection with the Loan. (c) Whether that Party has recourse, and the nature and extent of that recourse, against the Borrower or other obligors or any of its or their respective assets under or in connection with the Loan, or any financing document, other agreement, arrangement or document entered, made or executed in connection with the Loan. (d) The adequacy, accuracy and/or completeness of any information provided by ICICI Bank or by any other person under or in connection with the Loan; and (e) That each Party is solely responsible for any such checks or due diligence is required to carry out and that it may not rely on any statement in relation to such checks or due diligence made by ICICI Bank.

The submission of the EOIs by email are to be made to Mr. Amit Shelankar, Senior Relationship Manager, Contact No. +91 9819400174, (e-mail: [amit.shelankar@icici.bank.in](mailto:amit.shelankar@icici.bank.in)), Mrs. Sweeta Sahu, Senior Relationship Manager, Contact No. +91 9599036395, (e-mail: [sweeta.sahu@icici.bank.in](mailto:sweeta.sahu@icici.bank.in)), Mr. Rajdeep Roy, Relationship Manager, Contact No. +91 9372721860, (e-mail: [rajdeep.r@icici.bank.in](mailto:rajdeep.r@icici.bank.in)). If the submission is by hand delivery, the same shall be made at the following address: ICICI Bank Tower, NBCC Palace, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi – 110 003. For any further clarifications regarding data room, terms and conditions of the process, the above mentioned persons may be contacted.

This notice and contents hereof are subject to any prevailing laws, rules and regulations of India. Disclaimer: The particulars in respect of the aforesaid process /Loan specified herein above have been stated to the best of the information and knowledge of the undersigned, who shall however not be responsible for any error, misstatement or omission in the said particulars.

Date : April 16, 2026  
Place: New Delhi

SD/- Authorized Signatory  
For ICICI Bank Limited

# सोना व चांदी की कीमतों में तेजी

मुंबई | एजेंसी



सोना-चांदी के दाम में 15 अप्रैल को तेजी रही।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपए बढ़कर 3.53 लाख रुपए पहुंच गया। इससे पहले 13 अप्रैल को सोना की कीमत 1.50 लाख रुपए

प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, एक किलो चांदी 12,038 रुपए बढ़कर 2.49 लाख रुपए पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2.37 लाख रुपए प्रति किलो थी।

भारतीय रेलवे में वित्त वर्ष 2025-26 में 741 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, विद्युतीकरण 99.6 प्रतिशत पर पहुंचा

नई दिल्ली | एजेंसी

भारतीय रेलवे में वित्त वर्ष 2025-26 में 741 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है और ब्रॉड गेज नेटवर्क के 99.6 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है, जिसमें करीब 25,000 ट्रेनों का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आय बढ़कर करीब 80,000 करोड़ रुपए की हो गई है। कुल माल ढुलाई बढ़कर 1,670 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गई है। 2014 तक भारत के रेलवे नेटवर्क का क्षेत्रफल 20 प्रतिशत ही विद्युतीकृत था, जिससे परिचालन दक्षता सीमित थी और डीजल ईंधन पर निर्भरता अधिक थी। मार्च 2026 तक 69,873 किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण हो चुका है, जो 2014 में 21,801 आरकेएम था। सरकार ने बताया कि रेलवे विद्युतीकरण से 2024-25 में लगभग 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हुई, जिससे ऋचचे तेल के आयात में कमी आई और लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बचत हुई।

देश में विद्युतीकरण का स्तर अब ब्रिटेन (39 प्रतिशत), रूस (52 प्रतिशत) और चीन (82 प्रतिशत) से अधिक है।

निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती परिवहन प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की है - पूरी तरह से नॉन-एसी आधुनिक ट्रेनों जो किफायती यात्रा विकल्पों को बनाए रखते हुए आराम और सुरक्षा में सुधार के लिए डिजाइन की गई हैं। 18 मार्च, 2026 तक, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 60 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हो रही हैं।

**Superintendent Govt. Intellectual Disable Home, Balika Wing, Jamdoli, Jaipur, Directorate Of Specially Aabled Person**  
File No:-001/2307/2026-27 Date:- 10/04/2026

**Notice Inviting Bid**  
Bids for hiring two man with computer machine at Govt. Intellectual Disable Home, Balika Wing, Jamdoli, Jaipur, Directorate Of Specially Aabled Person are invited from interested bidders upto 12 PM date 17.04.2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://sppp.raajasthan.gov.in> of the state and <http://dsap.raajasthan.gov.in> departmental website. The approximate value of the procurement is upto Rs. 325000 (Three lakh twenty five thousand only)  
UBN No:- DSA2627SSOB00001  
Mob. No:- 9460554484

SUPERINTENDENT

**SHANKAR LAL RAMPAL DYE-CHEM LIMITED**  
CIN: L24114RJ2005PLC021340  
Registered Office: SG-2730, Suwana, Bhilwara – 311011, Rajasthan, India, Tel: +91-1482-22062  
Email: [info@srdyechem.com](mailto:info@srdyechem.com) | Website: [www.srdyechem.com](http://www.srdyechem.com)

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, (Rules), General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, and subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Regulations), and any other applicable provisions of the Act, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued thereunder [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time], the Company has, through Cameo Corporate Services Ltd, sent Notice of Postal Ballot vide e-mail dated 15TH April 2026, to those Members who have registered their e-mail IDs with the Depository Participant(s) or with the Company as on Friday, 10th April, 2026, being the cut-off date, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act, along with the Login ID and password, for seeking their approval on the following resolution:

Sr. No.	Description and Type of Resolutions
1.	Special Resolution Appointment of Mr. Sumit Jain (DIN: 11490160) as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation, to hold office for a period of 5 (five) consecutive years i.e., from 9th April, 2026 to 8th April, 2031.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Nitin Mehta (Proprietor, N Mehta & Associates) (FCS: 7025 and COP No.: 12483) Practicing Company Secretary, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner. In accordance with the MCA Circulars, Members can provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has entered into an agreement with Cameo Corporate Services Ltd, Registrar and Share Transfer Agent (RTA), for facilitating e-voting by the Members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. The e-voting period is as follows:

Commencement of e-voting	Friday, April 17, 2026 at 9:00 A.M. (IST)
End of e-voting	Saturday, May 16, 2026 at 5:00 P.M. (IST)

Members are requested to note that voting beyond Saturday, May 16, 2026 at 05:00 P.M. (IST) will not be allowed and the e-voting module shall be disabled thereafter.

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

The voting rights of Members shall be reckoned as on Friday, 10th April, 2026 which is the 'cut-off date'. A person who is not a Member of the Company as on the 'cut-off date' should treat the Notice of Postal Ballot for information purpose only. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at:

Company: [www.srdyechem.com/investor-relations](http://www.srdyechem.com/investor-relations)  
BSE Limited: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
NSE: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)  
NSDL (E-voting): [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

Members holding shares in physical form and who have not updated their e-mail IDs with the Company are requested to update the same by submitting a duly filled and signed Form ISR-1 (Form for registering PAN, KYC details or changes/update thereof) along with self-attested copy of PAN Card and self-attested copy of any document as address proof to our RTA - Cameo Corporate Services Ltd at Subramanian Building, #1, Club House Road, Chennai 600002, Tamil Nadu. or by email to [rd@cameoindia.com](mailto:rd@cameoindia.com) from their registered email id. In case of any queries or issues regarding the e-voting facility, Members can connect:

NSDL Helpdesk  
Toll Free No.: 1800-1020-990 / 1800-224-430  
Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)  
Members may also write to the Company Secretary at [cs@srdyechem.com](mailto:cs@srdyechem.com).

Date: 16/04/2026 By the Order of the Board  
Place: Bhilwara, Rajasthan For Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited  
Sd/-  
Aditi Babel  
Company Secretary & Compliance Officer



सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान  
फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, (उ.प्र.), फोन: +91-120-4390300 (EPABX),  
फैक्स: +91-120-4277841, ईमेल: [rswm.investor@lnjbhilwara.com](mailto:rswm.investor@lnjbhilwara.com); वेबसाइट: <https://www.rswm.in>

## असाधारण आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

10 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए हमारे समाचार-पत्र के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड ("कम्पनी") की (01/2026-27) असाधारण आम बैठक ("ईओजीएम") शुक्रवार, 8 मई, 2026 को 2:00 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, ईओजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसाय(ओं) के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी. ओ. गुलाबपुरा-311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर, 2025, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए अन्य परिपत्रों (इसके पश्चात् "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) एवं अन्य किसी प्रासंगिक कानूनों एवं भारत प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियमों तथा लागू परिपत्रों (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधनों या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, यथा समय यथा संशोधित, कम्पनियों को ईओजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ईओजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईओजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, ईओजीएम की सूचना 15 अप्रैल, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। ईओजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.rswm.in](http://www.rswm.in) पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग एवं ईओजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग एवं ईओजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, ईओजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के ईओजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ ईओजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमेंटेरियालाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेर्यर प्रतिरक्षित रखने वाले शेर्यरधारक एवं ऐसे शेर्यरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली ईओजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

**शुक्रवार, 1 मई, 2026 की कट-ऑफ तिथि** के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमेटेरियालाइज्ड रूप में शेर्यर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 1 मई, 2026 के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही ईओजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 5 मई, 2026 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 7 मई, 2026 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इसके पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 1 मई, 2026 को कम्पनी की प्रदत्त समता शेर्यर पूँजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/ईओजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें ईओजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 1 मई, 2026 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमेट अकाउंट संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा ईओजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/ईओजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा ईओजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं ईओजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, ईओजीएम में सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे ईओजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु ईओजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेर्यर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड) 179-180, डीएसआईडीसी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <a href="mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com">helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</a> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
<b>भौतिक शेर्यर धारिता के मामले में</b>
क) फोलियो नंबर, ख) शेर्यरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेर्यर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), छ) संपर्क नंबर
बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है: क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभार्थी प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेर्यरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
<b>डीमैट शेर्यर धारिता के मामले में</b>
कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री महेश कुमार गुप्ता, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2870), मेसर्स महेश कुमार गुप्ता एंड कम्पनी, की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा ईओजीएम के समापन के दो दिवस के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट [www.rswm.in](http://www.rswm.in) पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग/ईओजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को ईओजीएम की तिथि अर्थात् 8 मई, 2026 को पारित माना जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेर्यरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQ) एवं शेर्यरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 एवं 022-2499 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड  
हस्ताक्षर/—  
(सुरेंद्र गुप्ता)

वरिष्ठ वी पी लीगल एवं कम्पनी सचिव  
सदस्यता सं. एफसीएस - 2615

स्थान: नोएडा  
दिनांक: 15 अप्रैल, 2026